

9 जून, 2017 को न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया

ब्रह्मा कुमारीज़ संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी को राष्ट्र के लिए उनकी प्रतिष्ठित सेवाओं और उत्कृष्ट व्यक्तित्व की उपलब्धि के लिए "भारत गौरव पुरस्कार" 9 जून, 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया। इस समारोह में विश्व भर से पधारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

स्वास्थ्य ठीक न होने कारण, दादी जी व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अमरीका की यात्रा नहीं कर सके, इसलिए उनकी ओर से ब्रह्मा कुमारी भूमिका बहन ने दादीजी के मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार स्वीकार किया। साथ ही, ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन (ब्रह्मा कुमारीज़ के उत्तरी अमेरिका निदेशिका) को मानवता की विश्व सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए घोषित पुरस्कार भी ब्रह्मा कुमारी भूमिका बहन ने विनम्र पूर्वक स्वीकार किया।

राज्ययोगी दादी हृदय मोहिनी जी (ब्रह्मा कुमारीज़ संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका):

राजोगिनी दादी हृदय मोहिनी नाम का अर्थ है "सबके दिल को आकर्षित करने वाली" । 1936 में शुरुआत में ब्रह्माकुमारीज़ संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। जब दादी जी ओम मंडल के संपर्क में आयी तब उनकी उम्र आठ साल की थी और उनको सभी प्यार से गुलज़ार कहते थे। उनको बाल्यकाल से ही उन्हें दिव्य दृष्टि का ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ। जिससे पता चला की निकट भविष्य में जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था उच्चतम मानवीय मूल्यों के साथ होगी, और जहां शांति एकमात्र धर्म होगा ।

इस साल इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले अन्य महानुभावो में शामिल हैं, फिल्म निर्देशक - मधुर भंडारकर, सुलभ शौचालय के संस्थापक - बिंदेश्वर पाठक, टीवी एशिया के प्रमुख - एच आर शाह और अंतरिक्ष यात्री कल्पना कल्पना चावला। कुल मिलाकर 26 प्रतिष्ठित व्यक्ति इस साल इस पुरस्कार से सम्मानित हुए।

भारत गौरव पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में पेप्सी के सीईओ - इंदिरा न्यूी, उड़ान परिचारक - नीरजा भानोत और अनुभवी अभिनेता मनोज कुमार शामिल हैं।

भारत गौरव पुरस्कार या भारत का गौरव पुरस्कार:

भारत गौरव पुरस्कार की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जयपुर-मुख्यालय स्थित गैर सरकारी संगठन, संस्कृति युवा संस्था द्वारा की गई है। 2012 में, संस्कृति युवा संस्था ने "भारत गौरव पुरस्कार"

सम्मान समारोह शुरू किया। विश्व के जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं और भारत का गौरव बढ़ाते हैं, कोफ़ी टेबल बुक लॉन्च के साथ उनको भव्य समारोह में सम्मानित किया जाता है।